

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा।

पत्रांक... 959

आरा, दिनांक... 10/06/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक आफ बड़ौदा
शाखा- आरा।

विषय:- समर कंन्ट्रक्शन के नाम से जमा FD का सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समर कंन्ट्रक्शन पता-आर्यपूरी कॉलोनी पकड़ी, आरा जिला-भोजपुर जो New Maintenance Policy-2018 Package No-MR-N/23-24 Ara/05 योजनान्तर्गत पथ में डाला गया जमा-पुष्टि (F.D) आपके शाखा से निर्गत किया गया है जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के नाम से प्रतिज्ञित है जिसका सत्यापन कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सूचित किया जाए जो नीचे निम्न प्रकार है।

क्रमांक	FD	निर्गत करने की तिथि	समाप्ति की तिथि	Pledge करने की तिथि	राशि
1.	12040300034776	11.06.2024	15.07.2025	11.06.2024	7000.00 ✓
2.	12040300034764	10.06.2024	14.07.2025	10.06.2024	73000.00 ✓
3.	12040300033815	29.01.2024	03.03.2025	29.01.2024	195000.00 ✓
4.	12040300033639	06.01.2024	06.01.2025	06.01.2024	181000.00 ✓
	Total				4,56,000.00

Dear Sir,

We confirm issuance of -4- FDRs
(A/c No. 12040300034776, 12040300034764,
12040300033815 & 12040300033639)
duly pledged in favor of EE, RWD,
Work Division, Ararh.

विश्वासभाजन

10/06/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।





बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge to: E. E. RWD ARA Division



Confirmation Advice

SAMAR CONSTRUCTIONS

ARYAPURI COLONY NR CIRCUIT HOUSE
PAKRI ARRAH
802301
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD Account No 12040300034776

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1106240757

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No J9B071991

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12040200000787

शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR

योजना / Scheme bob TIRANGA PLUS DEPOSIT SCH

नामांकन / Nomination N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No. ALIPK3743P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
7000	11-06-2024	7.15	0 Months 399 Days	15-07-2025	7564

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिवर्ष में निर्धारित है
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अल्पकालीन अवधि में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई जमा राशि का नवीकरण देय तरीके पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी जमा राशि का नवीकरण देय तरीके पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा
- फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच (जैसे लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी
- फॉर्म 15एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
- परिपक्वता आहरण क्लॉज
- रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू फाउंड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा
- रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में स्वीकृत वाली अवधि के लिए लागू फाउंड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए
- नॉन-कॉलैबल जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण को अनुमति नहीं है
- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
- For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not renewed before the due date
- For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not renewed before the due date
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit failing which TDS will be deducted
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
- Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank
- Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SAMAR CONSTRUCTIONS	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12040300034764
ARYAPURI COLONY NR CIRCUIT HOUSE	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1006245041
PAKRI ARRAH	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	J9B071991
802301	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12040200000787
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHBIHAR

योजना / Scheme	bob TIRANGA PLUS DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ALIPK3743P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
73000	10-06-2024	7.15	0 Months 399 Days	14-07-2025	78883

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज: i) यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii) यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15G और 15H सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए. अन्यथा सॉल्ट पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्व खंड करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्व खंड करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर दंड में वरिष्ठ होने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्र पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए. 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner

बैंक ऑफ बरोडा
Bank of Baroda



व्यक्तिगत निधि / Deposit Confirmation Advice

SAMAR CONSTRUCTIONS		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12040300033815
125, APT-1, COLONY NR CIRCUIT HOUSE BARODA-390004		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2901245813
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	J9B30/1991
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12040200000787
		शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHBHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नियुक्ति / Nomination	N		
नियुक्ति पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ALHPK3743P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
प्रचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lion Marked	N		

व्यक्तिगत निधि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
₹95000	29-01-2024	7.15	0 Months 399 Days	03-03-2025	210674

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
- Form 15M can be accepted only from age of 18 years onwards
- Premature Withdrawal Clause
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty, i.e. less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty, i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note: This is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner

Bank of Baroda

BRANCH DIV AR

Branch Office: Mumbai, Baroda

Branch: KARNATAK BRANCH

M.V. is subject to TDS

M/S. SANKU CONSTRUCTIONS

One Lakh Eighty One Thousand only, it means eight one

06-01-2024 06-01-2025 1.81% p.a.

12040300033639

As Taken Deposit Under 1.81,000 p.a.

Value Date	Due Date	Period	Rate of Interest	Amount
06-01-2024	06-01-2025	1.81% p.a.		

0902976

Operational Instructions if any

Loan Noted On

Loan Cancelled On

For BANK OF BARODA

Signature: R. K. S. / 1/985

Signature: [Signature] / 12/0007

Bank of Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda

Branch: Baroda